





REF: GPIL/NSE&BSE/2025/6093

Date: 04.11.2025

To.

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001.

Scrip Code: BSE: 532734

To.

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C/1, Block G,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai-400051.

Scrip Code: GPIL

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 and regulation 30 read with Schedule III part A para A of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in Hindi and English Edition on 04.11.2025 regarding opening of special window for re-lodgement of the transfer requests of physical shares.

The above information is also available on the website of the Company www.godawaripowerispat.com.

Thanking you,

Yours faithfully

For Godawari Power And Ispat Limited

Y.C. Rao

**Company Secretary** 

aushp...



An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company CIN L27106CT1999PLC013756

Registered Office and Works: Plot No. 428/2, Phase 1, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India
P: +91 771 4082333, F: +91 771 4082234

Corporate Address: Hira Arcade, Near Old Bus Stand, Pandri, Raipur - 492004, Chhattisgarh, India

P: +91 771 4082000, F: +91 771 4057601

Stressed Assets Recovery Branch. Mumbai (05168):- 6th Floor "The International".16. Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai-400 020. Phone: 022 - 22053163 / 22053164 / 22053165, E-mail: sbi.05168@sbi.co.in

## **E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES**

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, the Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", As is What is" and Whatever there is" basis on 20.11.2025 in between 11.00 am to 04.00 pm for the recovery of respective amount due to the State Bank of India (Secured Creditor) from the respective Borrower(s) and the Guarantor(s) as specified here under:

| Name of<br>Borrowers | Outstanding Dues for Recovery of which Property/ies is/are being sold | Description of the immovable properties                   | Reserve<br>Price<br>(in Rs.) | Earnest Money<br>Deposit (EMD)<br>(in Rs.) | Date &<br>time of<br>inspection |
|----------------------|---|---|------------------------------|--|---------------------------------|
| Mrs. Anita           | Rs.1,71,95,229.00 (Rupees One Crore                                   | Property ID: SBIN200072333980                             | Rs.                          | Rs.  | 13.11.2025                      |
| Bharos Gupta &       | Seventy One Lakh Ninety Five Thousand                                 | All the part & parcel of immovable property i.e. Flat No. | 1,81,00,000/-                | 18,10,000/-                                | From                            |
| Mr. Bharoskumar      | Two Hundred Twenty Nine Only) as                                      | 405, 4th floor, Building No. 2, B wing, Hansa, Saraswati  | (Rupees One                  | (Rupees                                    | 03.00 am                        |
| Gupta                | on 09.01.2024 with further interest                                   | Baug Society Road, Village Ismalia, Jogeshwari (E),       | Crore Eighty                 | Eighteen Lacs                              | to 05.00                        |
|                      | incidental expenses,& costs etc. thereon                              | Mumbai - 400 060 admeasuring 799 sq.ft. carpet area       | One Lacs                     | Ten Thousand                               | pm                              |
|                      | (Demand Notice Date - 09.01.2024)                                     | with exclusive right to balcony adm. 20 sq.ft. area with  | Only)                        | Only)                                      |                                 |
| , [                  |   | Basement car parking No. PZ-35. Possession: Physical      |                              |  |                                 |

The e-auction will be conducted through Bank's e-Auction service provider M/s PSB Alliance Private Limited at their web portal https://baanknet.com The intereste bidders shall ensure that they get themselves registered on the e-auction website and deposit earnest money in the virtual wallet created by service provider as per guidelines provided on https://baanknet.com

The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid documents, Training/Demonstration, Terms & conditions on online Inter-se Bidding etc., may visit the website https://baanknet.com

For detailed terms & conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India the Secured Creditor Website www.sbi.co.in , https://bank.sbi. https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others and https://baanknet.com

Statutory Notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act: This is also a notice to the Borrower/Guarantor of the above loan under Rule 8(6) of the SARFAESI Act 2002 about holding of Auction for the sale of secured assets on above mentioned date

Enquiry: Shri. Mahesh Choudhari, Authorised Officer, Mobile No.7875044195, Ms. Swati Parab, City Case Officer, Mobile No. 9773881449 Sd/-, Authorised Officer, State Bank Of India

Date : 03.11.2025 / Place : Mumbai

# Tata Housing Development Company Limited

CIN: U45300MH1942PLC003573

Regd. Office: "E Block", Voltas Premises, T. B. Kadam Marg, Chinchpokli, Mumbai - 400 033. Tel. 91 22 6661 4444 Fax: 91 22 6661 4452 Website: www.tatahousing.com

Tel. 91 22 6661 4444 Fax: 91 22 6661 4452 Website: www.tatahousing.in Extract of Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and six months ended 30 September 2025

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

|   |   |                       |                       | (₹ in crores)      |  |  |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| Sr<br>No.   | Particulars   | For the quarter ended | For the quarter ended | For the year ended |  |  |
|   |   | 30 September<br>2025  | 30 September<br>2024  | 31 March<br>2025   |  |  |
|   |   | (Unaudited)           | (Unaudited)           | (Audited)          |  |  |
| 1   | Total Income from Operations  | 20.52                 | 8.77                  | 166.57             |  |  |
| 2   | Net (Loss) for the period/year (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)   | (51.51)               | (31.26)               | (130.24)           |  |  |
| 3   | Net (Loss) for the period/year before tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)  | (77.26)               | (82.68)               | (192.37)           |  |  |
| 4   | Net (Loss) for the period/year after tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)   | (77.09)               | (83.09)               | (193.71)           |  |  |
| 5   | Total Comprehensive (Loss) for the period/year [Comprising (Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (77.40)               | (82.85)               | (193.72)           |  |  |
| 6   | Paid-up equity share capital(Face Value of the equity share INR 10 each)  | 1280.97               | 1280.97               | 1,280.97           |  |  |
| 7   | Reserve (excluding Revaluation Reserves)  | 101.23                | 380.61                | 221.28             |  |  |
| 8   | Securities Premium Account  | 2730.24               | 2730.24               | 2,730.24           |  |  |
| 9   | Net worth   | 1,382.20              | 1,661.58              | 1,502.25           |  |  |
| 10  | Paid up Debt capital / Outstanding Debt   | 2,658.04              | 2717.3                | 2,565.99           |  |  |
| 11  | Outstanding Redeemable Preference Shares (Refer note 3)   | N.A                   | N.A                   | N.A                |  |  |
| 12  | Debt Equity ratio (in times)  | 1.92                  | 1.64                  | 1.71               |  |  |
| 13  | Earnings per share *(Face value of INR 10/- each)   |                       |                       |                    |  |  |
|   | (a) Basic (INR)   | (0.60)                | (0.65)                | (1.51)             |  |  |
|   | (b) Diluted (INR)   | (0.60)                | (0.65)                | (1.51)             |  |  |
| 14  | Capital Redemption Reserve  | N.A                   | N.A                   | N.A                |  |  |
| 15  | Debenture Redemption Reserve (Refer note 4)   | N.A                   | N.A                   | N.A                |  |  |
| 16  | Debt Service Coverage ratio (in times)  | (0.11)                | 0.03                  | 0.08               |  |  |
| 17  | Interest Service Coverage ratio (in times)  | (0.11)                | 0.42                  | 0.40               |  |  |
| * not annualised for quarter ended 30 September 2025 and 30 September 2024. |   |                       |                       |                    |  |  |

# not annualised for quarter ended 30 September 2025 and 30 September 2024.

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / annual financial results are available on the websites of the Company i.e. www.tatahousing.com and BSE Ltd. i.e. https://www.bseindia.com.
- For other line items of the Regulation 52 (4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Ltd. and can be accessed on the URLhttps://www.bseindia.com
- The Company has not issued any redeemable preference shares during the year. Hence, this clause is not applicable
- The Company has not created debenture redemption reserve as per Section 71 of the Companies Act. 2013 due to loss during the year/period.

Tata Realty and Infrastructure Limited

CIN: U70102MH2007PLC168300 Regd. Office: "E Block", Voltas Premises, T. B. Kadam Marg, Chinchpokli, Mumbai-400033 Tel. 91 22 6661 4444, Fax: 91 22 6661 4452, Website: www.tatarealty.in Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months Ended 30 September 2025

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

For the quarter

(Unaudited)

28.79

(29.84

(29.84)

(14.53)

(110.16)

3,114.8

2,978.25

2,255.26

8,348.38

1,125.00

NΑ

0.13

(0.05)

(0.05)

(0.47)

(0.47)

Refer Note 4

NA

For and on behalf of Tata Housing Development Company Limited CIN: U45300MH1942PLC003573 Sanjay Dutt **Managing Director** 

For the quarter

ended 30 September 2025 30 September 2024 31 March 2025

(Unaudited)

38.20

(47.26)

(47.26)

(44.97)

128.30

3,114.87

2,822.37

2,255.26

8,192.49

2,645.00

NA

0.32

(0.14)

(0.14)

0.01

0.08

Refer Note 4

NA

DIN - 05251670

(INR in crores)

For the Year

(Audited)

142.88

(196.83)

(196.83)

(191.79)

479.90

3,114.87

2,952.89

2,255.26

8,323.02

1,607.00

NA

0.19

(0.62)

(0.62)

(0.01)

(0.04)

Refer Note 4

NΑ

Place: Mumbai Date: 03 November 2025

**Particulars** 

2 Net Profit / (Loss) for the period / year

Tax, Exceptional

Net Profit / (Loss) for the period / year

before tax (after Exceptional and/o

Net Profit / (Loss) for the period / year

after tax (after Exceptional and / or

Total Comprehensive Income / (Loss) for

the period / year [Comprising (Loss) for the period / year (after tax) and Other

(Face Value of the equity share INR 10

Revaluation

Not annualised for quarters ended 30 September 2025 and 30 September 2024.

(excluding

10 Paid up Debt capital / Outstanding Debt

11 Outstanding Redeemable Preference

Comprehensive Income (after tax)]

Paid-up equity share capital

8 Securities Premium Account

Shares (refer note 3)

13 Earnings per share '

(a) Basic (INR)

(b) Diluted (INR)

12 Debt Equity ratio (in times)

14 Capital Redemption Reserve

15 Debenture Redemption Reserve

16 Debt Service Coverage ratio (in times)

17 Interest Service Coverage ratio (in times)

(Face value of INR 10/- each)

1 Total Income from Operations

Extraordinary items)

Extraordinary items)

Extraordinary items)

each)

9 Net worth

Reserve

Reserves)

# **PUBLIC NOTICE**

Flat No.3, on the first floor of the building in JIN PARASMANI Co-Operative Housing Society Ltd., situated at V.N. Purav Marg, Chunabhatti (East), Mumbai.

THIS is to notify that my Client i.e MR AMIT JITENDRA DESAI is the Owner of the Flat No.3, on the first floor of the building in JIN PARASMANI Co-Operative Housing Society Ltd., situated at V.N. Purav Marg, Chunabhatti (East), Mumbai.

The original documents i.e. 1) Various Payment Receipts issued by M/S MANEK BUILDERS in favour of MRS JAVERBEN RALYANJI DEDHIA. 2)
Possession letter issued by M/S
MANEK BUILDERS in favour of
MRS JAVERBEN KALYANJI DEDHIA and 3) Article of Agreement dated 26th January 1991 executed between M/S MANEK BUILDERS and MRS JAVERBEN KALYANJI DEDHIA are lost/misplaced and the same is not traceable and a complaint was lodged with Chunabhatti Police Station on 28th October 2025 and recorded the same under Property missing register no.141819 / 2025 dated 28th October 2025.

Any person/s, Organization/s Company/ies, Institution/s, Bank/s or any other Govt. / Concerned authorities having any right, title, claim etc. against or in the aforesaid Apartment or by virtue of the loss of aforesaid document, by way of inheritance, mortgage, possession, sale, gift, lease, charge, trust, maintenance, development, easement, transfer, licence, either agitated in any itigation or otherwise or any other right or interest whatsoever are nereby required to make the same known in writing to the undersigned within a period of 15 days from the date of publication hereof.

f no claim is made as required hereinabove, my client will be at liberty to deem that such right/s, if any, have been waived for all nts and purposes and shall not be binding on my client.

ADV M.T. THACKER ADVOCATE M.T.THACKER & **ASSOCIATES** Advocates, High court

E-6/0:4, Sector-1, Vashi, Navi Mumbai-400 703 E Mail: office@mtthacker.com Tel: 27825052 / 27825084 / 85 Ref: No.2510049

**GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED** Regd. Office & Works: 428/2.Phase-I, Industrial Area, Siltara,Raipur (C.G. GODAWARI POWER & ISPAT Corporate Office: Hira Arcade, Near Bus Stand, Pandri, Raipur (C.G.) 49200

## Website: www.godawaripowerispat.com E mail: yarra.rao@hiragroup.com CIN No.: L27106CT1999PLC013756 NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER **REOUESTS OF PHYSICAL SHARES**

Notice is hereby given to inform that in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, SEBI vide its circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/ CIR/2025/97 dated 2ndJuly, 2025 has opened a special window for a period of six months from 07th July, 2025 bit 105th Jerusy 2025 each force bedserver of the provided that the control of the provided that the control of the provided that the provi 2025 till 06th January, 2026 only for re- lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of 01 April, 2019and rejected, returned/not attended to due to deficiency in the documents/ process/or otherwise. Investors who have missed the earlier deadline of 31s March 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity.

During this period, the securities that are re-lodged for transfe (including those requests that are pending with the Listed Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum- demat requests. The eligible investors can submit their requests along with requisite documents/ any queries in this regard to RTA of the Company at-MUFG Intime India Private Limited Unit: Godawari Power And Ispat Limited C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083 Maharashtra, India, Tel No.: +91-8108116767, E-mail Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com
For Godawari Power & Ispat Limited

Y.C. Rao, Company Secretary Date: 03.11.2025

LIBORD SECURITIES LIMITED

CIN: L67120MH1994PLC080572 Regd. Office: 104, M.K. Bhavan, 300, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai 40001. one: 022-22658108 / 09 E-mail: investorrelations@libord EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025 (Rs. In Lakhs) Quarter | 6 Months | Quarter Ended Ended **Particulars** 30.09.2025 30.09.2025 30.09.2024 Reviewed Reviewed Reviewed

Net Profit / (Loss) for the period before Tax | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) (118.11) (118.11) (14.32) 381.69 381.89 485.68 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Diluted 0.04 0.17 0.20

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com/corporate and the Company's website at www.libord.com/libord-securities-ltd/ 画版第回 For Libord Securities Limited Sd/-

Place : Mumbai Place : Mumbai Date : November 3, 2025 Ramesh Kumar Jain Authorised Director

Credila

# CREDILA FINANCIAL SERVICES LIMITED

(CIN: U67190MH2006PLC159411) Regd. Office: B-301, Citi Point, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059 Tel No: 1800-209-3636 | Website: www.credila.com Email: investor@credila.com

## FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2025

(₹in Lakhs)

| (VIII LANIS)  |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Particulars   | Quarter ended<br>30 September 2025   | Quarter ended<br>30 September 2024  | Year ended<br>31 March 2025   |  |  |  |  |
|   | Reviewed   | Reviewed  | Audited   |  |  |  |  |
| Total income from operations  | 1,52,012.08  | 1,16,660.70   | 4,72,599.96   |  |  |  |  |
| Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)      | 44,230.07  | 30,310.26   | 1,32,597.12   |  |  |  |  |
| Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) | 44,230.07  | 30,310.26   | 1,32,597.12   |  |  |  |  |
| Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)  | 33,064.99  | 22,648.97   | 98,995.84   |  |  |  |  |
| Total comprehensive income for the period   | 32,022.31  | 19,495.03   | 94,171.84   |  |  |  |  |
| Paid-up equity share capital  | 21,878.77  | 21,482.98   | 21,878.77   |  |  |  |  |
| Reserves (excluding revaluation reserve and securities premium account)             | 3,17,776.65  | 1,97,173.42   | 2,55,586.87   |  |  |  |  |
| Securities premium account  | 5,91,984.91  | 5,65,408.76   | 5,91,984.91   |  |  |  |  |
| Net worth*  | 9,23,451.70  | 7,73,809.18   | 8,61,956.85   |  |  |  |  |
| Paid-up debt capital or outstanding debt  | 43,90,271.54   | 33,42,452.35  | 38,86,901.45  |  |  |  |  |
| Debt-equity ratio <sup>#</sup>  | 4.8  | 4.3   | 4.5   |  |  |  |  |
| Earnings per share (of ₹10/- each)<br>(not annualized for the interim period)       |  |   |   |  |  |  |  |
| 1. Basic:   | 15.11  | 10.78   | 47.80   |  |  |  |  |
| 2. Diluted:   | 15.02  | 10.77   | 47.69   |  |  |  |  |
|   | Total income from operations  Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)  Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)  Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)  Total comprehensive income for the period  Paid-up equity share capital  Reserves (excluding revaluation reserve and securities premium account)  Securities premium account  Net worth*  Paid-up debt capital or outstanding debt  Debt-equity ratio#  Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualized for the interim period)  1. Basic: | Total income from operations Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) Total comprehensive income for the period Paid-up equity share capital Paid-up equity share capital Reserves (excluding revaluation reserve and securities premium account) Securities premium account Net worth* Paid-up debt capital or outstanding debt Debt-equity ratio <sup>#</sup> Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualized for the interim period) 1. Basic:  30 September 2025  Reviewed  1,52,012.08  44,230.07  44,230.07  33,064.99  32,022.31  21,878.77  3,17,776.65  43,90,271.54  4.8 | Particulars         30 September 2025         30 September 2024           Reviewed         Reviewed           Total income from operations         1,52,012.08         1,16,660.70           Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)         44,230.07         30,310.26           Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)         44,230.07         30,310.26           Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)         33,064.99         22,648.97           Total comprehensive income for the period         32,022.31         19,495.03           Paid-up equity share capital         21,878.77         21,482.98           Reserves (excluding revaluation reserve and securities premium account)         3,17,776.65         1,97,173.42           Securities premium account         5,91,984.91         5,65,408.76           Net worth*         9,23,451.70         7,73,809.18           Paid-up debt capital or outstanding debt         43,90,271.54         33,42,452.35           Debt-equity ratio*         4.8         4.3           Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualized for the interim period)         15.11         10.78 |  |  |  |  |

\* Networth is equal to paid up equity share capital plus other equity less deferred tax assets and intangible assets. # Debt equity ratio is equal to (Debt securities + Borrowings + Subordinated Liabilities) / Net Worth.

- The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and the other accounting principles generally accepted in India.
- The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and half year ended 30 September 2025 filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on www.bseindia.com and www.credila.com.
- For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com and www.credila.com.

For and on behalf of Board of Directors **Credila Financial Services Limited** 

CONSOLIDATED

**Arijit Sanyal** Managing Director & CEO (DIN: 08386684)

By Order of the Board of Directors

D. H. Parekh

Date: 03 November 2025

# Regd. Office: Flat No.1, Ground Floor, Harsh Apartment, Plot No.211, Sector-28, Vashi, Navi Mumbai-400703

CIN: L17110MH1892PLC000089 Website: www.standardindustries.co E-mail ID: standardgrievances@rediffmail.com Tel: 61391200/01/02 STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025 (₹ in Lakhs)

Quarter ended Six months ended Year ended March 31, 2025 **Particulars** Septembe June September September September No 30, 2025 30, 2025 30, 2024 30, 2025 30, 2024 Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited 1049.49 1687.77 2792.41 1 Total income from operations (net) 638.28 452.82 1136.52 2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (665.21)(101.99)(206.11)(767.20)(344.08)(1,344.38)3 Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (665.21) (101.99)(206.11) (767.20)(344.08)(1,344.38)4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (665.21) (101.99)(206.11)(767.20)(344.08)(1,350.97)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (101.94)(206.11)1,187.28 (1,340.92)(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] 6 Equity Share Capital 3,216.45 3,216.45 3,216.45 3,216.45 3,216.45 3,216.45 7 Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) 8,729.63 8 Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) for continuing and discontinued operations) \* (1.03)(0.16)(0.32)(1.19)(0.53)(2.10)(1). Basic (2). Diluted (1.03)(0.16)(0.32)(1.19)(0.53)(2.10)

\* EPS is not annualised for the quarter and six months ended September 30, 2025, quarter ended June 30, 2025 and quarter and six months ended September 30, 2024.

The Financial details on standalone basis are as under: (₹ in Lakhs) STANDALONE Year ended Quarter ended Six months ended Warch 31, 2025 **Particulars** September June September September September No 30, 2025 30, 2025 30, 2024 30, 2025 30, 2024 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 610.53 1 Total income from operations (net) 796.84 429.66 1407.37 876.20 2234.98 2 Net (Loss)/Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (666.28) (103.58)(137.69) (769.86) (321.99) (1,378.75)3 Net (Loss)/Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (666.28) (103.58)(769.86) (1,380.44)(137.69)(321.99)Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (103.58)(137.69)1,184.57 (1,370.53)(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]

Notes to Consolidated Unaudited Results for the quarter and six months ended September 30, 2025.

- 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and are approved by the Board of Directors of the Group at their meeting held on November 3, 2025. The statutory Auditors of the Group have expressed unqualified opinion on these Financial Results.
- The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.
- Standard Industries Limited ("Company") was holding 14,47,714 no. of equity shares in Duville Estates Pvt.Ltd. During the period under review, the Company sold 9,04,845 no. of equity shares out of the Company's total holding at a fair value price of Rs.212/- per equity share as determined by Bhakti Shah & Associates, Chartered Accountant & Registered Valuer of the shares of Duville Estates Pvt.Ltd. Profit on Sale of 9,04,845 no. of equity shares sold and balance holding of 5,42,869 no. of equity shares at a fair value price both aggregating Rs.1954.43 Lakhs is included in "Other Comprehensive Income"
- The code of Social Security, 2020 ("Code") relating to employee benefits during employment and post-employment benefits has been notified in the Official Gazatte on 29th September, 2020. The draft rules have been released on November 13, 2020 and suggestions invited from stakeholders are under consideration by the Ministry. The impact of the change will be reassessed and accounted in the period in which said rules are notified for implementation.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for Quater and six months ended on September 30, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter and six months ended on September 30, 2025 is available on the website of the Company i.e. www.standardindustries.co and also on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The
- same can be accessed by scanning the QR code provided below. Standard Industries Limited has created an e-mail ID viz., standardgrievances@rediffmail.com exclusively for the purpose of registering complaints by investors.
- Corresponding figures for the previous year/period have been regrouped/rearranged wherever necessary.

Place: Mumbai Dated: November 3, 2025

**Executive Director** DIN 00015734 A

Notes:

- 1 The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Company i.e. www.tatarealty.in and BSE Ltd. i.e. https://www.bseindia.com.
- 2 For other line items of the Regulation 52 (4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Ltd. and can be accessed on the URLhttps://www.bseindia.com.
- 3 As the Company has not issued any redeemable preference shares during the guarter/year. Hence, this 4 The Company has not created debentures redemption reserve as per Section 71 of the Companies Act, 2013 due to unavailability of the profits of the company for payment of a dividend during the period / year.
- For and on behalf of Tata Realty and Infrastructure Limited CIN: U70102MH2007PLC168300

Place: Mumbai Dated: 3 November 2025

Sanjay Dutt Managing Director DIN - 05251670

# आदर्श ग्राम पंचायत कटगी जहां बनती हैं धागों से रंगबिरंगी साड़ियां बनाकर अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। खटर-पटर की आवाज से गूंजते हुए इस गांव में युवाओं की महनत और लगन का पता चलता है। वे अपनी कला को

कटगी/बलौदाबाजार, 3 नवंबर (देशबन्धु)। आदर्श ग्राम पंचायत कटगी जो छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित है, अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। इस गांव में देवांगनों के यहां लगभग हर घरों में हथकरघा मशीन लगी हुई है, जिससे विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं।यहाँ के निवासी देवांगन समाज के लोग इस कला में पारंगत हैं और अपनी मेहनत से सुंदर साड़ियाँ बनाकर महाजनों को देते हैं जो जनावर महाजना वर्ग दरा है जा उड़िसा के बाजार में बेचते हैं।कटगी उड़िसा के बाजार म बच्चा हुन ... में साड़ी निर्माण की प्रक्रिया बहुत न जाञ् । नमाण का प्राक्रया बहुत ही रोचक है। देवांगन समाज के बुनकर धागा लेकर साड़ी का निर्माण

NAME CHANGE

SWARUP VERMA S/O SANT

33.KHASRA NO.-145/6. MAITRI

KUNJ,STAR NURSURY ROAD,

RISALI BHILAI DISTT -DURG

(C.G.) 490006 have changed my

old name PRAHLAD SWARUP

VERMA S/O SANT RAM so in

future I should be recognized by

my new name that is PRAHLAD

SWAROOP VERMA S/O SANT

RAM in all Government and

PRAHLAD SWAROOP

VERMA

H.NO.-33.KHASRA NO.-145/6

MAITRI KUNJI STAR NURSURY

ROAD, RISALI BHILAI

DISTT -DURG (C.G.) 490006

गालय नायब तहसीलदार गुरूर जिला-बालोद ( छ.ग. ) ईश्तहार

ther documents



२ समाज में एक

NAME CHANGE

It is informed to the genera blic that I, LIKESH KUMAF

dent of CHARODA BASTI

DAAU KAMAL NARAYAN CHOWK WARD 18, BHILAI, CHARODA, DURG (C.G.)

490025 have changed my old

name LIKESH KUMAR S/O SHYAMLAL NISHAD so in future

should be recognized by my

IKESH KUMAR NISHAD S/O

SHYAMLAL NISHAD in all

LIKESH KUMAR

NISHAD

CHARODA BASTI

DAAUKAMAI NARAYAN

CHOWK WARD 18, BHILAI,

CHARODA, DURG (C.G.)

490025

शपथ-पत्र

श्रापथ-पन्न मैं संज्य सिंह बैस पिता ऑकार सिंह बैस उम्र 49 वर्ष निवासी बार्ड क्रमांक 0६ बी.टी.आई. कॉलोनी कोविया बेमेतर जिला-बेमेतरा छ.ग. का रहने वाला हूं, जी निम्म कथन शर्प पूर्विक करता हूं, 1. वह कि मेरा नाम व पता उपरोकतानुसार हैं एवं मेरा आभार संख्या 780828301947 हैं।

है। 2. यह कि मेरे पुत्र का जन्म कोबिया ब्रेमेतरा दिनांक 09.05.2009 को हुआ है। जिसका पंजीकरण संख्या 303 जारी पंजीयन दिनांक 27.06.2009 हैं जन्म

भेजिया दिनांक र भारत स्थान स्

and other

overnment

that

यहां की निर्मित साड़िया देश विदेश में भी पहचान बनाई हुई है महाजन होते

खनाने मे हैं, जो बुनकरों को धागा देते हैं और बदले में साड़ी लेते हैं।महाजन द्वारा बनकरों को एक साड़ी के लिए 2700 से 3000 रुपये दिए जाते हैं।

लगभग दो तीन दिन का समय लगता है। कटगी के युवाओं ने अपने लिए रोजगार का एक नया

एक साड़ी को

रास्ता चुना है। वे धागों से साड़ियाँ

#### NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, SHYAM LAL S/O मतदाताओं से की अपील **बलौदाबाजार,** 3 नवं बर (देशबन्धु)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपकसोनी ने भारत PALTU RAM NISHAD resident of CHARODA BASTI DAAU निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सची के KAMAL NARAYAN CHOWK निवायन जाना पुरासिण कार्यक्रम के संबंध में सहभागिता एवं सहयोग हेतु जिले के मतदाताओं से अपील की है। जिला नुर्वाचन अधिकृरी ने अपील में WARD 18. BHILAI. CHARODA DURG (C.G.) 490025 hav changed my old name SHYAM कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वार LAL S/O PALTU RAM NISHAD कहा है। के भारत । नवाचन आयाग द्वारा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है जिसमें 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक जिले के 1014 बृथ लेवल अधिकारी द्वारा घर –घर सर्वे के दौरान गणना पत्रक का so in future I should be recoç nized by my new name that i SHYAMLAL NISHAD S/O PALTU RAM NISHAD in all Governmer वितरण एवं भरे हुए गणना पत्रक कलेक्शन का कार्य किया जाएगा nd other documents

SHYAMLAL NISHAD

CHARODA BASTI. DAAUKAMAL NARAYAN

CHOWK WARD 18, BHILAI, CHARODA, DURG (C.G.) 490025

न्यावालव अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम अधिकारी गुण्डरदेही, जिला-बालोद ( छ.ग. ) ईश्तहार

त.त्र.क्र. 202510241400019

अ–2 वर्ष 2025–26 सर्वसाधारण को सूचित किय जाता है कि आवेदक टामीन ठाकु जाता है।क जायदक टामान ठाकुर पति महेन्द्र कुमार ठाकुर साकिन-बोरगहन तहसील–अर्जुन्दा, जिला-बालोद (छ.ग.) के द्वारा ग्राम अर्जन्त में स्थित अपने भू–स्वामी भूमि खसरा नं. 1036/1 रकबा 0.14 हेक्टेयर में से रकबा 0.07 है. भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु इस

यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है डक्त प्रस्तावित व्यपवर्तन में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है, वह या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद मे

प्रस्तुत आपत्ति अग्राह्य होगी। आज दिनांक 13.10.2025 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की

पदमुद्रा से जारी किया गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. मुहर गुण्डरदेही, जिला-बालोद NAME CHANGE

#### NAME CHANGE

नायब तहसीलदार गुरूर

oublic that I. MD SHAMIM KHAN S/O WAKIL AHMED resident of WARD NO-07, SUPELA BHILAI DURG (C.G.) have changed my old name MD SHAMIM KHAN S/O WAKIL AHMED so in future hould be recognized by my new me that is SHAMIM AHMED

locuments SHAMIM AHMED KHAN

H.NO-36, FAREED NAGAR WARD NO-07, SUPELA BHILAI DURG (C.G.)

शपथ पत्र

## शपथकर्ता NAME CHANGE

ublic that I. RAJDA KHAN D/C MD SHAMIM KHAN resident o I.NO-36, FAREED NAGA WARD NO-07, SUPELA BHILA DURG (C.G.) have changed my old name RAJDA KHAN D/O MI SHAMIM KHAN so in future hould be recognized by my new me that is RAZDA KHAN D/0 HAMIM AHMED KHAN in a

RAZDA KHAN

H.NO-36, FAREED NAGAR WARD NO-07, SUPELA BHILA DURG (C.G.)

# शपथ पत्र

र्ग अपना नाम आशीष (Ashish) के हर आशीष शक्त (Ashish Thakur प्रमा पिता का नाम राजकुमार क्षत्री (umarKshatri) के स्थान पर 'राज ज़क्त (Rajkumar Thakur)' दर्ज : बाहता हूं बाकि एकरुपता कायम हो सके बार्णित गायिसी बाण्ड में काण्डिका मृतुसार् नाम दर्ज कराते के समर्थन में शाण्ड

It is informed to the general ublic that I, CHANDRAKER W/O LALI CHANDRAKAR resident of E-29 VARD NO 55 RISHAB GREEN CITY DURG 41001 (C.G.) hav hanged my old name SPRIHA CHANDRAKER W/O LALIT CHANDRAKAR so in future should be recognized by my new ame that is SPRIHA HANDRAKAR W/O LALI CHANDRAKAR

SPRIHA CHANDRAKAR

ocuments

E-29 WARD NO 55 RISHAB GREEN CITY DURG 41001 (C.G.)

### न्यायालय तहसीलदार भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छतीसगढ़) **र्डश्तहार**

इंशाहार ता.प्र.क....अ/56 वर्ष 2025-2026 ग्राम का नाम - कैथी एतद द्वारा सर्व साधारण को स्विव्त किया जाता है कि आवेदिका हेमा वाई मानिकपूरी पविश्व सानिकपूरी जाति पनिका निवासी ग्राम कैथी तहसील जाति परिकृति निवाससं प्राप्त केष्यो तहस्संत्र ग्राम्यापा विज्ञा बलिदाबाजार भारापार के द्वारा प्राप्त के द्वारा प्राप्त के द्वीरा प्राप्त के द्वारा प्राप्त केथी २०६० नं 0.2 रा०नि०मं० तरिमा जातर प्राप्ताय कि स्वकाराय किए जारायारा कि रिक्त को कोरावर एव एव अपनी निर्मुक्त कियो जाते हो आसेक्त पत्र अपनी निर्मुक्त कियो के हो आसेक्त पत्र अपना प्राप्त के साथ प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकृत इस न्यायालय में विज्ञावारी है तथा दिनांक 17–11–2025 को सुनवाई के तथा विज्ञावारी किया निया है।

हेतु नियत है। अतपुष उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपति दावा होतो, अपना आपत्ति दावा स्वयं अध्या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय की नियत पेशी तातीख 17-11-.025 तक प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि ह पश्चात् प्राप्त आपत्ति दावा पर किसी प्रका हे विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03-11-2025 को में

। जा प्रताक एउ । । २०२० क. . . एवं न्यायालयकी मुद्रा सहित जारी

तहसीलदार भाटापारा ( छ.ग. ) सील

को विकसित करने में जुटे हुए हैं। यहाँ के निवासी अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उक्लेखनीय है कि कटगी में साड़ी निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। देवांगन समाज के बुनकर धागा लेकर साड़ी का निर्माण करते हैं। जो कि व्यापारियों के माध्यम से देश विदेश भी सप्लाई किया जाता है जो छनीसगढ़ की पहचान भी बनी है

नए आयाम देने के लिए प्रयासरत

हैं। सादी बाधी के महाजन राजेश

देवांगन ने बताया कि वे बुनकरों को धागा देते हैं और बदले में साड़ी

लेते हैं। उन्होंने बताया कि बुनकरों को एक साड़ी के लिए 2700 से 3000 रुपये दिए जाते हैं। महाजन

की भूमिका बुनकरों को समर्थन देने और उनकी कला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। कटगी ग्राम्

पंचायत अपने आप में एक आदर्श

उदाहरण है। यहाँ के निवासी अपनी मेहनत और लगन से अपने गांव

एसआईआर प्रक्रिया में

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम अधिकारी गुण्डरदेही, जिला-बालीद ( छ.ग. ) ईश्तहार

अ-2 वर्ष 2025-26 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संजय कुमार

वल्द रामनाथ ठाकुर साकिन-बोरगहर

तहसील अर्जुन्दा, जिला-बालोर (छ.ग.) के द्वारा ग्राम बोरगहन में

स्थित अपने भू–स्वामी भूमि खसरा नं 531/5, रकबा 0.02 हेक्टेयर में से रकबा 0.02 हे. भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये व्यपवर्तन हेतु इस

न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तन में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है, वह

पेशी तारीख 05.11.2025 तक स्वयं

या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद में

आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल पदमुद्रा से जारी किया गया।

प्रस्तत आपत्ति अग्राहय होगी।

न्यायालय अनुविभागीय ऑ गुण्डरदेही, जिला-बा

रा.प्र.क्र. 202510241400020

#### NAME CHANGE It is informed to the gene

ublic that I, UMESH KESHARWANI S/O RAMJI AL KESHARWANI resident of RATAPGANJ, SARANGARH C.G.) 496445 have change old name UMESH KESHARWANI S/O RAMJI LAL KESHARWANI so in future hould be recognized by my ne ame that is UMESH KUMAR KESHARWANI S/ORAMILIAI

#### UMESH KUMAR KESHARWANI

KESHARWANI in all Governo

PRATAPGANJ. SARANGARH. (C.G.) 496445

शपथ-पत्र

में श्रेयांश कटारिया आ. बसंत रेया पता डी- 277/78 टैगोर नगर रायपुर (छ.ग.) नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. शपथ पूर्वक जारा रायपुर छ.ग. रापाय पुजान नर्नालिखत कथन करता हूँ कि :-। यह कि मेरा नाम व पता अन्य आवश्यक विवरण उपरोक्तानुसार सत्य खंसही दर्शित हैं। 2. यह कि मेरे पुत्र का नाम अर्थ कटारिया (ARTH KATARIYA) हैं

... यह है नहीं जुं की ला आ के द्वारायां (ARTARIYA) ((OOB 99,04,2024) अबांकि उसके करायियां (ARTARIYA) अवाधिक उसके करायियां के नाम में बना हुआ है जिवसे आधारेंग उर्जन अर को किशापित कर को किशापित करायितं है को किशापित करायितं है जिसके आधारेंग उर्जन अर के किशापित करायें के उसके करायेंग प्रतिकृत करायें के उसके करायेंग के तुर्वा अर्थन प्रक्र अर्थन अर्थ

प्रमाण पत्र में सिर्फ अर्थ कटा (ARTH KATARIYA) दर्ज कराई

HIRA गोतावटी पावट एण्ड इत्पात लिमिटेड प्रेश्वात अधीर कार्यात विभिन्ने के प्रतिकृत कार्याल १८३८७, प्रेस १, अधीरक केन्न, सकता, प्रत्यू, ज्वीरण कार्यित अधित, प्रत्यू, ज्वीरण कार्यात का

स्विवादियां उपार्थ के स्विवादियां अपनी के प्रकार करने के लिए
स्विवादियां उपार्थ के स्विवादियां के पुरान : वास्तिव करने के लिए
स्विवादियां उपार्थ के स्विवादियां के सुमाना
स्विवादियां के साम विकाद के स्विवादियां के स्

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटे हस्ता./-वाय.सी.राव. कंपनी सचिव

#### कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला - नारायणपुर (छ.ग.)

// अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सचना //

निविदा क्रमांक / M-1288 /पअ/ना.पर/एसी-1/2025-26 / नारायणपर. दिनांक 28/10/202

01 निविद्या प्रपन्न विकास की अंतिस तिथि : 09 11 2025 के 05:00 बजे तक

11. ानावदा प्रपत्र ावक्रय को आतम ाता
102. निविदा प्राप्ति/जमा को ऑतम तिथि
103. निविदा खोले जाने की तिथि
104. निथिदा प्रपत्र का मूल्य

: 10.11.2025 के प्रिकेश व्यक्त तक : 13.11.2025 के प्रकेश 5.00 बने : 750/- (चालान के माध्यम से पुलिस-0055, 800- अन्य प्राधियों) : 3 माह (वर्षों अनु सहित) : 'डी' एवं उच्च अंगो लीमिक के अंगो में पाजतनुसार, : 'डी' एवं उच्च अंगो लीमिक के अंगो में पाजतनुसार, : 'डी' एवं उच्च अंगो लीमिक के अंगो में पाजतनुसार, कार्य पूर्ण करने की अवधि
 ठेके की आमंत्रण क्रमांक
 प्रभावी दर अनुसूची

कार्य का विवरण घरोहर राशि 1 133वीं व्यक्तिनी बी.एस.एफ. कैम्प डोडरीबेड़ा में जवान बैरक का मरम्मत कार्य म्रास्मात कार्य
 133वीं व्यक्तिंग बीएस.एर. कैम्प सोनपुर में जवान बैरक का मस्मात कार्य
 135वीं व्यक्तिंग बीएस.एर. कैम्प कुरुगवर में बैरक का मस्मात कार्य
 135वीं व्यक्तिंग बीएस.एर. कैम्प बारिश में बैरक, टॉक्टेट का 9340=00 4.98 (লান্ত্র) 9960-00 1359 कर्या मरम्मत कार्य 29वीं वाहिनी अई.टीबी.पी. कैम्प फरसगांव में टॉयलेट, मोर्चा, 4.61 (লান্ত্র) 9220=00 तवान बैरक का मरम्मत कार्य 53वीं वाहिनी आई.टीबी.पी. कैम्प आकाबेडा में टॉयलेट, बैरक 6 3-34 वार्यन्त अंदा टावा, पी. केम्प आकारेखा में टॉपलेट, वेसल सम्प्रता कार्य 4-5मी वार्यनि आई.टी.सी.पी. केम्प बन्तरायंत्र में टॉपलेट, टॉवर मंत्री जवार वेसल, आफिरस प्रेसल का मास्मान वार्य 4-5मी वार्यिक होते सी.ची. किम्प ट्रिक्ट टॉवर केम्प्रता केस्स्त, कन्युनिकेटल कम एवं डॉवर्डिंग होल का सामान कार्य भाग 1 3 38मी वार्यिक होते सी. केम्प अमदर्श में जवार वेसल का सामान डाव्य 4.99 (লান্ডা) 9980-00 4.99 (लाख) 5.00 (লান্ত্র) 10 38वीं वाहिनी आई.टी.बी.पी. कैम्प कुकड़ाझोर में टॉयलेट, बैरक आर.सी.सी. बैरक का मरम्मत कार्य 4.99 (लाख) 9980-00

नोट : निविदा संबंधी अन्य जानकारी के लिए अधीक्षक, कार्यालय नारायणपुर में सम्पर्क कर सकते हैं। G-252604513

NAME CHANGE

शपथ-पत्र में श्रेयांश कटारिया आ. ब या पता डी- 277/78 दैंगोर न (छ.ग.) नगर रायपुर तहसील ूरायपुर छ.ग. शपथ पृर

रिपपुर (७.स.), उपार प्रमुख एक्टरा न विस्ता रावपुर छन्। अथा पूर्वक रिमानीलिक कपन रुता हूँ कि: -). वह कि संग ना च पता आज्ञ आवस्यक क्रियाण उपरोज्ञानास सम्य एवं सकी दिती हैं । 2. वह कि संग पूर्व जा जाना आया उपरांग्या (ARADAHYA KATARIYA) हैं (DOB 2.211,2016) ज्वाकीर ज्वाके आग्रध्या कर्जारिया के नाम से क्या इजा हैं विस्थान कर करिया उद्योग्य कर्जा कर्जा विस्तानिक कर सिम्म और सिम्म अग्रध्या अर्थ रुदारिया (ARADAHYA KATARIYA) के नाम से वस्याना हिनसे सुम्बार रुता हैं हैं व वह सम्याना हैं क्से सुम्बार रुता हैं

क ही नाम दर्शित करवाने हेतु उसके धार कार्ड जिसमें उसका नाम आराध्य टारिया (AARADHYA KATARIYA

कटारिया (AARADHYA KATARY) लिखा हुआ है आधार कार्ड एवं प्रमाण को ज्याप्राति इस शपथ पत्र साथ संलग्न कर रहा है हु ताकी प्रमाण पत्र में सिर्फ आराध्या कटा (AARADHYA KATARIYA)

हराई जा सकें।

public that I, MANOJ JAIN S/C NIRMAL KUMAR JAIN residen of 76, MAIN ROAD SARAYPAL TEHSIL SARAYPALI, DISTI MAHASAMUND (C.G.) 493558 have changed my old nam MANOJ JAIN S/O NIRMAL KUMAR JAIN so in future ould be recognized by my ne ame that is MANOJ KUMAR JAIN S/O NIRMAL KUMAR JAIN in all Government and other doo

> MANOJ KUMAR JAIN 76, MAIN ROAD SARAYPALI

TEHSIL SARAYPALI. DISTT MAHASAMUND (C.G.) 493558 NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, RAJENDRA KESHARWANI S/O GOPAL RASAD KESHARWANI lent of 123, BANIIAPARA SANDHIMARG SARANGARH C.G.) 496445 have change ny old name RAJENDRA ESHARWANI S/O GOPAL PRASAD KESHARWANI so in future I should be recognized by name RAJENDRA KUMAR (ESHARWANI S/O GOPAL PRASAD KESHARWANI in al overnment

#### RAJENDRA KUMAR KESHARWANI

123 ΒΑΝΙΙΑΡΑΒΑ GANDHIMARG, SARANGARH

MUNICIPAL CORPORATION, RAUPUR

nt Tender Notice oc costate.gov.in (2nd Call)

NIT NO: 2545/Zone-5/2025

Online bids are invited for the following works up to 15.11.2025 at 17:30 hours System Tender No. Name of work / Description of work जोन क्रमांक 05 अंतर्गत नगर निगम विभाग हेतु 10 श्रमिक (अकुशल) कलेक्टर दर पर प्लसेमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराने बाबत् । 1 Rs. 19.98 Lacs जोन क्रमांक 05 अंतर्गत जल विभाग हेतु 14 श्रमिक (5 कुशल, 4 अर्द्धकुशल 5 अकुशल) कलेक्टर दर पर प्लसेमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराने बाब 2 Rs 29 71 Lacs जोन क्रमांक 05 अंतर्गत 06 चौकीदार/सुरक्षा गार्ड कलेक्टर दर पर 3 178308 प्लेसमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराने बाबत्

details can be viewed and downloaded online directly from the Gooc cgstate.gov.in from 31.10.2025 10.30 Hours (IST) on wards. ds. visit the above-r

को सफाई मित्र (वाहन) को देवें ।

MUNICIPAL CORPORATION, RAIPUR (C.G.)

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, सतपा ढांड कॉम्प्लेक्स, राजमवन के पीछे, गौरव पथ, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492 PICICI Bank

बांड कॉम्प्लेक्स, राजमवन के पीछे, गौरव पथ, रायपुर, छत्तीसगर वना – प्रत्यामृत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा–सह-ई-नीलामी

आप्रधानश्यास्थान अध्यामका स्थान के कि विकास कर कि विकास कर कि स्थान के कि अपने कि कि विकास के कि अपने कि कि अपने कि कि अपने कि अपने

| क्र.<br>सं. | कर्ज़दार(शें)/<br>सह-कर्ज़दार(शें)/<br>जमानतदार(शें) के नाम/<br>ऋण खाता संख्या   | प्रत्याभूत आस्तियों का<br>विवरण, ऋणभारों सहित,<br>यदि कोई है  | बकाया<br>राशि (रु. में)                             | धरोहर<br>राशि जमा<br>(रु. में)                | की तिथि<br>एवं समय  | ई-नीलामी<br>की तिथि<br>एवं समय                 |
|-------------|--|---|---|---|---|--|
| (7)         |  | (सी)  | (륑)   | (ई)   | (एफ)  | (जी)   |
| 1.          | मेसर्स मंगल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड<br>(कर्जदार), बबीता<br>अग्रवाल, प्रदीप कुमार<br>अग्रवाल, प्रदीप कुमार<br>अग्रवाल, प्रमीप अग्रवाल,<br>पंचण आग्रवाल, पुरान<br>अग्रवाल, मेसर्स माल<br>कमाश्रियल, प्राइवेट<br>लिमिटेड (बंधककर्ता एवं<br>आमानतदार),<br>016151000059,<br>016155000069. | कार्यालय कमांक 209, रिशव वेम्बर्स, ए.ज. री.ड. क्यांत कमांक 431 माग, जवाहर नगर वार्ड, वार्ड कमांक 37, गीजा— रायदुर, मीएए, कमांक 106, तरहारील एवं जिला— रायदुर, 5.ग. हैं उत्तर क्यांत क्यांत क्यांत कर क्यांत क्यांत्र क्यांत क्यां | रू.<br>12,71,94,<br>033/-<br>अक्टूबर 08,<br>2025 तक | ₹.<br>10,00,<br>000/-<br>₹.<br>1,00,<br>000/- | नवंबर<br>12, 2025<br>को सु.<br>11:00 बजे<br>से दो.<br>01:00 बजे<br>तक | नवंबर<br>26, 2025<br>को सु.<br>10:30<br>बजे से |

ऑनलाइन नीलगी हमारी नीलगी संस्था <del>नेसर्द नेसरहोन सॉल्यूर्सन प्रावृद्ध लिपिटेड की वेस्साइट (URL Link-Intps://disposalhub.com)</del> पर संधारित होगी बंद्राक्कतांजी / सुस्ता प्रेमिक्कतांजी को नवसर 25, 2025 को बाग 05:00 कर्ज से सुदे तक कुत बकाया संवि उत्त पर कार्यव्यान के अनुसार की जारणी संधार्म के अनुसार की जारणी संधार्म के अनुसार की जारणी

कार्यक्रम के अनुसार अपना का जातम जवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहते पर इस/इन संगीवत संगीत(जी) की क्रिके निर्धार्थित कार्यक्रम के अनुसार के जाएगी।
संगायित के लोगला(जो) को ब्रामा जाति (हुंप्पत्ती) हिमाप्य हुम्पर (होती) (क्रिकेस ईरेब) को ब्राम्हितीआई ब्रेक तिमीप्रेस, तीसरी मिजिल, संस्पास विसंत, इंग्रेस क्रमेंस्कर, राज्यस्थ में की, नीत पर पर एक्टी हुंप्पत्त कर कार्यक्रम के अपना सहित कर कार्यक्रम के स्थाप महत्त कर कार्यक्रम के स्थाप महत्त के मायाम में हुंप्पत्ती के मुस्ताम तास्य अर्थात के पूर्व जान कर वो हो स्थापीत के मुस्ताम तास्य अर्थात के पूर्व जान कर वो हो स्थापीत कोशिता (क्री को बेस्ताप्त के मायाम में उनके मस्ताम के स्थाप कार्यक्रम के मायाम में हुंप्पत्ती के मुस्ताम तास्य अर्थात के मायाम से उनके मस्ताम कार्यक्र कार्यक्रम के मायाम से उनके मस्ताम के मायाम के स्थाप कि स्थाप के स्थाप के स्थाप कि स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप कि स्थाप के स्थाप कि स्थाप के स्थाप में इस्स के स्थाप के स्थाप में इस स्थाप के स्थाप के स्थाप में इस से स्थाप के स्थाप में इस स्थाप के स्थाप के स्थाप में इस स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप में इस स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप में इस स्थाप के स

फान नबर ४९७.२८४४८४८ राज्य स्थान करा। कृष्यामा ने दक्ष हैं का कार्कीए एसंसी बैक्सुस्टर केमिटल सर्विसेण प्राइवेट लिमिटेड इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सत्तंत्र है। प्राविद्युत अधिकारी बिना किसी कारण दसार किसी एक अध्या अधिक निविद्य व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। बिक्री के बिस्तुत निव्याने एं जारी हुं कुण्या बेसाइट www.lciobank.com/aphp पर परिकंट में

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, सतपाल चैंबर्स, दांड कॉम्प्लेक्स, राजमवन के पीछे, गौरव पथ, रायपर. छत्तीसगढ- ४९२००१

1 (बाह कॉम्प्सेक्स, नाजमना के पीठ, नौरूप पाय, रायुर, छमीसगढ़- 492001 विक स्पान - प्रत्याप्त आस्ति की दिंठी देंति विद्यान पहुँ = मीतामी [नियम पु 6() का प्रत्यापन देखें] अपस तंपितियों की दिक्की देतु पुराना -नीतामी विक्रय की व्याना वित्तीय आसित के प्रतिमृतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति दित द्यदित प्रतिभृति ब्याज (प्रतर्तन) नियमावसी, 2002 की यांच 8(6) के अपीन प्रदत्त शतियों का उपयोग

| क्र.<br>सं. | कर्जदार(रों)/<br>सह-कर्जदार(रों)/<br>जमानतदार(रों) के<br>नाम/ऋण खाता संख्या   | प्रत्याभूत आस्तियों का<br>विवरण, ऋणभारों सहित,<br>यदि कोई है  | बकाया<br>राशि (रु. में)                                  | धरोहर<br>राशि जमा<br>(रु. में) | संपत्ति<br>निरीक्षण<br>की तिथि<br>एवं समय                            | ई-नीला<br>की तिरि<br>एवं समय |
|-------------|---|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| (y)         | (बी)  | (सी)  | (डी)   | (考)                            | (एफ)   | (जी)                         |
| 1.          | मेश्सर्व मांगल कमर्शियल<br>प्राइवेट सिनिटेड<br>(कर्मेदरा), पंत्रण<br>आवाल, सुमन आवाल,<br>पंत्रील अवसाल, प्रमोच<br>आवाल, उत्तीप कुमार<br>आवाल, त्रील कुमार<br>(क्रान्स्ट्रिक) | बेबोलीन टॉल्स कॉन्डोमीनियम, देलीबांग, बालिणियक कार्यावस्य पृष्टिन के, ए-401, ए-402, ए-401, ए-402, ए-403, ए-403, ए-405, ए-405, ए-403, ए-403, ए-403, ए-404, ए-405, ए-405, ए-403, ए | रू.<br>18,40,<br>74,174/-<br>(अक्टूबर<br>08, 2025<br>तक) | 000/−                          | नवंबर<br>11, 2025<br>को सु<br>11:00 बजे<br>से दो.<br>01:00 बजे<br>तक | को सु.<br>10:30<br>बजे से    |

अनेलाइन नीकामी हमारी नीकामी संस्था में बंद स्थापन केंद्र हा अपने कार कि किया है कि हमारी नीकामी संस्था में बंदि स्थापन केंद्र हों के स्वाहाट (URL Link-https://disposalhub.com) प्रस्तावित होंगी संस्था में स्थापन होंगी होंगी संस्था में स्थापन होंगी होंगी संस्था में स्थापन होंगी संस्था में स्थापन होंगी संस्था में स्थापन होंगी संस्था में स्थापन होंगी होंगी संस्था में स्थापन होंगी संस्थापन होंगी संस्था होंगी संस्थापन होंगी संस्था में स्थापन होंगी संस्था में स्थापन होंगी संस्थापन होंगी संस्थापन

में मुसान हैत होना वाहिए। संपत्ति निरोक्षण, ई.—सिलामी के नियम एवं शतों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआई बैंक** वर्मचारी वे से स्पर्टिकरण के सामग्री के नियम एवं शतों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआई बैंक** वर्मचारी वे

फोन नंबर 8324948920 पर संबर्क करें। कृपया नोट कर कि मार्कीटंग एंजेंसी वेस्कुट्सर केपिटल सर्विसेज प्राप्तदेद लिमिटेड इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंब्र है। प्राप्तद्रना अधिकारी में निक्सी काल पर्दार्श किसी एक अथवा अधिक निविदा ब बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। बिक्री के विस्तृत निध्यमों एवं बतों हेतु कृपया बेस्साइट www.lcicibank.com/n4p4s पर संपर्क करें।